

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया ने 'परीक्षा पे चर्चा-2023' में लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा

जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के कुलपति, रजिस्ट्रार, वरिष्ठ अधिकारियों, छात्रों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने परीक्षा पर चर्चा की लाइव स्ट्रीमिंग देखी (#PPC2023) माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जहां उन्होंने छात्रों के साथ तनाव मुक्त परीक्षा का मंत्र साझा किया।

विश्वविद्यालय ने माननीय प्रधानमंत्री के 'एग्जाम वारियर्स' के साथ बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में तीन स्थानों पर विशेष व्यवस्था की थी। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने भाग लिया और गहरी दिलचस्पी एवं उत्साह के साथ सीधा प्रसारण देखा।

प्रो नाज़िम हुसैन जाफरी, रजिस्ट्रार, जेएमआई ने विश्वविद्यालय के मीर तकी मीर हॉल में विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ #PPC23 का सीधा प्रसारण देखा।

FTK-CIT कांफ्रेंस हॉल में भी विशेष व्यवस्था की गई थी जहाँ स्कूली छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अभिभावकों ने #PPC23 की लाइव स्ट्रीमिंग देखी। लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए डॉ जाकिर हुसैन सेंट्रल लाइब्रेरी में भी व्यवस्था की गई थी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन डॉ तारिक अशरफ ने लाइब्रेरी के छात्रों और स्टाफ सदस्यों के साथ सीधा प्रसारण देखा।

तीन स्थानों के अलावा, विभिन्न विभागों ने अपने स्तर पर #PPC 2023 के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की थी जिसमें छात्रों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिलिया इस्लामिया